

# ANNUAL IMMOVABLE PROPERTY RETURN

Statement of immovable property for the year

1. Name of Officer (in full) and service to which the officer belongs : Mrig Nayani Gupta
2. Present Post held : Programme Officer
3. Present Pay : 71,100/-

Name of District, Sub-Division, Taluk and village in which property is situated	Name and details of property		*Present Value	If not in own name state in whose name held and his/her relationship to the Government Servant	How acquired whether by purchases, lease**, mortgage inheritance, gift, or otherwise, with date of acquisition and name with details of person/ persons from whom acquired	Annual income from the property	Remarks
	Housing and other buildings	Lands					
- NA -	-	NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	

Signature.....Mrig Nayani Gupta

Date.....28/11/2021

Inapplicable clause to be struck out.

- In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.
- Includes short-term lease also.
- The wording 'No Change or No addition opr as in previous year' may be avoided and all details filled up.

Note- The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Class I and Class II (Group 'A' and Group 'B') services under Rule 15(3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1955(now Rule 18(1) of the CCS(Conduct) Rules, 1964), on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.



**वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी / Annual Immovable Property Return**

वर्ष के लिए अचल संपत्ति का विवरण

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR 2016-17

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा सेवा का नाम जिससे अधिकारी संबंधित है /

Name of the officer and service to which the officer belongs

: MRIG. NAYANI GUPTA

2. वर्तमान पद / Present Post held

: PROGRAMME OFFICER, SAHITYA AKADEMI

3. वर्तमान वेतन / Present Pay

: Basic + GP = ₹ 24,350

जिला, सब डिवीजन, ताल्लुका और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति है / Name of District, Sub Division, Taluka and Village in which the property is situated.	संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि का नाम तथा ब्योरा / Name the details of property, housing lands & other buildings	*वर्तमान मूल्य / *Present Value	यदि संपत्ति अपने स्वयं के नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम है तथा उससे सरकारी कर्मचारी का संबंध क्या है? / If not in own name, state in whose name held & his/her relationship to Govt. Servant.	संपत्ति कैसे अर्जित की गई? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई ** बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य स्रोत से ली गई। तारीख जिसको अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई। / How acquired? Whether by **purchase lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.	संपत्ति से वार्षिक आय / Annual Income from the property	अभ्युक्तियाँ / Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- N/A -	-	-	-	-	-	-

जो खंड लागू नहीं हैं, उसे काट दिया जाए। / Inapplicable clause be stuck out.


\* जहाँ मूल्य का सटीक आंकलन संभव नहीं है वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमानित मूल्य उल्लिखित किया जाए।

In case where it is not possible to assess the value accurately the approximately value in relation to present conditions may be Indicated.

\*\* अल्पकालिक पट्टे पर ली गई भी शामिल है। / Includes short term lease also.

हस्ताक्षर / Signature

दिनांक / Date

  
10/4/17

टिप्पणी : घोषणा पत्र भरना तथा इसे केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) के अधीन सेवा में प्रथम नियुक्ति पर श्रेणी-1 तथा श्रेणी-11 वर्ग (अ) एवं वर्ग (ब) के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक संपूर्ण अचल संपत्ति का विवरण दिया गया हो।

Note : The declaration form is required to be filled and submitted by every member of Class-I and Class-II service under Rule 18(1) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 on the first appointment to the service and thereafter at the Interval of every year giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.